



ॐ ॥ श्री ज्योति जगानेका मन्त्र ॥ ॐ

ॐ श्री वरुणाय नमः

ॐ श्री लालाय नमः

ॐ ॥ श्री अखे साहिब का मन्त्र ॥ ॐ

ॐ अखो पायां अमर रीझायां, जो फल मागां सो फल पायां ।

अखो अखो जय भन्डार अखो, अखे अखे वेनती अधिकाई ।

जेइ चइजनि हेकडा तिन जो साणी अमरलाल ।

मूं मिस्कीन जा ही बटे कणा, अखा-फुला कबुल पवनि ।